

MASTER COPY

3

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)



विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक



# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

भारतीय विश्वविद्यालय संघ, दिल्ली के सभा-कक्ष में आयोजित

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 27 मार्च, 2005

## अनुक्रमणिका

क्र.सं.	पृष्ठ क्रमांक
1.	विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। 01 से 08
2.	विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्रवाई। 09 से 14
3.	एम.ए. (स्त्री अध्ययन), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) तथा एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन। 15 से 58
4.	एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव। 59 से 60
5.	एम.फिल. के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन। 61 से 64
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन' स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव। 65 से 78
7.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान व सी-डैक, नोएडा के शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग से एम.टेक. (भाषा प्रौद्योगिकी) एवं एम.ए. (कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव। 79 से 90
8.	प्रशासनिक व अकादमिक सहयोग तथा आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एम.ओ.यू. करने का प्रस्ताव। 91 से 94
9.	विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन। 95 से 165
10.	विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में छमाही नवीकरण पाठ्यक्रम शुरु करने का प्रस्ताव। 166 से 171
11.	दूर शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाएँ। 172 से 175
12.	संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन। 176 से 177



# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

## विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक

### कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च 2005 को सुबह 11:00 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नयी दिल्ली के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति
2)	डा. (श्रीमती) माजिदा असद	:	सदस्य
3)	डा. (श्रीमती) इन्दिरा गोस्वामी	:	सदस्य
4)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
5)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6)	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
7)	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
8)	डा. कमलेश दत्त त्रिपाठी	:	सदस्य
9)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
10)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
11)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
12)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
13)	डा. एस. आर. फारूकी	:	सदस्य
14)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
15)	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव एवं कुलसचिव

अन्य सदस्यों में डा. नबनीता देव सेन स्वास्थ्य ठीक न होने तथा डा. मृदुला गर्ग, प्रो. उदय नारायण सिंह, प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय और प्रो. बी.ए. प्रभाकर बाबू पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

बैठक में प्रसिद्ध रंगकर्मी, डा. नेमिचंद्र जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की।

तदुपरांत कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

**कार्य-सूची की मद सं. 1**

**विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :**

विद्या-परिषद् की 17 एवं 18 अगस्त, 2004 को वर्धा में सम्पन्न दूसरी बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त न होने के मद्देनजर विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।**

अनुलग्नक : दूसरी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त (पृष्ठ 3 से 8)

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त